

## सरी के दत्ता हैल्थ सेंटर आयुर्वेदिक क्लीनिक से खरीदे उत्पादों को प्रयोग न करने की फ्रेज़र हैल्थ की जनता को सलाह

सरी – फ्रेज़र हैल्थ ने सरी में स्थित दत्ता हैल्थ सेंटर आयुर्वेदिक क्लीनिक ("दत्ता क्लीनिक") के ग्राहकों को सचेत किया है कि वे दत्ता क्लीनिक से खरीदे गए किसी भी आयुर्वेदिक उत्पाद को प्रयोग न करें क्योंकि उनके कुछ उत्पादों की जांच करने पर उनमें भारी धातुओं (जिनमें सीसा और पारा भी शामिल हैं) की मात्रा स्वीकार्य से अधिक पाई गई है तथा प्राकृतिक स्वास्थ्य उत्पादों के रूप में बेचे जाने के लिए *हैल्थ कैंनेडा* से स्वीकृत नहीं हैं। दत्ता क्लीनिक द्वारा बेचे जाने वाले उत्पादों से स्वास्थ्य गंभीर खतरे में पड़ सकता है।

सीसे की मौजूदगी के बारे में पता चलने पर जांच करने के बाद फ्रेज़र हैल्थ ने *जन स्वास्थ्य कानून (डिवीज़न 4)* के अंतर्गत दत्ता क्लीनिक के मालिक को यूनिट 109, 12888 – 80 एवेन्यू, सरी, बीसी के पते पर स्वास्थ्य को खतरे का आर्डर भेजा। *हैल्थ कैंनेडा* ने दत्ता क्लीनिक को लेकर एक एडवाइज़री जारी की है।

भारी धातुओं की उच्च मात्रा वाले पदार्थ खाने से गंभीर रोग हो सकते हैं, यहां तक कि मौत भी हो सकती है। फ्रेज़र हैल्थ एक ऐसे व्यक्ति को जानती है जो दत्ता क्लीनिक के आयुर्वेदिक उत्पाद खाने के बाद सीसे के जहर के कारण बीमार पड़ गया था।

यदि आपने दत्ता क्लीनिक से उत्पाद खरीदे या सेवन किए हैं और आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्याएं हैं तो किसी डाक्टर से मिलें और आपके द्वारा प्रयोग किए उत्पादों के बारे में बताएं। रोग के किसी भी निदान या इलाज के **BC ड्रग तथा जहर जानकारी केंद्र (Drug and Poison Information Centre)** आपके डाक्टर के साथ मिलकर काम करने के लिए उपलब्ध है। स्वास्थ्य संबंधी किसी भी उत्पाद के **हानिकर प्रभाव** की सूचना या **शिकायत** आप *हैल्थ कैंनेडा* को भेज सकते हैं।

सीसे के जहर के लक्षणों में शामिल हैं:

- एनीमिया
- सिर-दर्द / चिड़चिड़ापन / धीमी सोच
- कब्ज़ी
- पेट-दर्द
- गर्भपात / मरे हुए बच्चे का जन्म

पारे के जहर के लक्षणों में शामिल हैं:

- मूड में उतार-चढ़ाव
- स्मृति हानि
- मांस-पेशियों में कमजोरी

यदि आपके मन में कोई प्रश्न हैं या आपको अधिक जानकारी चाहिए तो कृपया फ्रेज़र हैल्थ के सरी स्वास्थ्य सुरक्षा दफ्तर को (604) 930-5405 स्थानीय 765612 पर कॉल करें।

मीडिया पूछताछ के लिए कृपया संपर्क करें:

फ्रेज़र हैल्थ मीडिया लाइन: (604) 613-0794

फ्रेज़र हैल्थ मीडिया ईमेल: [media@fraserhealth.ca](mailto:media@fraserhealth.ca)

स्वास्थ्य संबंधी अधिक समाचारों तथा जानकारी के लिए देखें: [www.fraserhealth.ca](http://www.fraserhealth.ca)

हमें फॉलो करें: <http://twitter.com/FraserHealth>